



प्रेस नोट

दिनांक- 08.01.2023

थाना सिकन्दरा पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया !

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा के कुशल नेतृत्व में थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.01.2023 को 01 नफर अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 08.01.2023 को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि 01 व्यक्ति अवैध शस्त्र लेकर जा रहा है, जिसकी सूचना को तस्दीक करते हुये थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित स्थान पर पहुँचकर 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा में मु0अ0स0- 07/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 01 नफर अभियुक्त- शानू संखवार पुत्र स्व0 रामरतन निवासी- रसधान कालोनी थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. शानू संखवार पुत्र स्व0 रामरतन नि0 रसधान कालोनी थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध तमंचा 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0007/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 11/07 धारा 328/379/304 भादवि थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 13/07 धारा 379/411 भादवि व 3/11/8 पशु क्रूरता अधि0 थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 15/07 धारा 379/328 भादवि थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 17/07 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अवनीश वर्मा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. का0 1106 मनीष थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
3. का0 891 राजू सिंह थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात